

25/02/2026

Dr. Arun Kumar Ray

Assistant Professor

Deptt of Psychology

U.R. College Rosera Samaspur

Semester-Ist 2025-2029

Paper - (MTC) 2025-2029

\*

\*

\*

Sub-Topic

\* (I) चिन्तन के तत्व (Factors of Thinking)

\* (II) (वुडवर्थ द्वारा प्रतिपादित चिन्तन के तत्व)

(Elements of Thinking Propounded by Woodworth)

\* चिन्तन के तत्व \*

\* चिन्तन की उपर्युक्त परिभाषाओं के अनुसार चिन्तन की प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्व होते हैं -

\* (I) समस्या का प्रयुक्त होना (Coexisting of Problem): -  
विचार की प्रक्रिया का आरम्भ किसी भी जटिलता की उपस्थिति से होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि चिन्तन का प्रथम तत्व 'समस्या' है। इसकी प्रक्रिया तभी प्रारम्भ होती है जब व्यक्ति के समक्ष वातावरण से अभिभाजन सम्बन्धी कोई समस्या उपस्थित होती है।

(II) समस्या निवारण हेतु विभिन्न विकल्प (various steps of Problem solution): -  
समस्या के उपस्थित होने पर व्यक्ति की विचार प्रक्रिया आरम्भ होती होती है तथा उन समस्याओं के निवारण के विभिन्न तरीके सामने आ जाते हैं जिनमें से उसे विचारपूर्वक रूप से चुनाव करना होता है।

(III) प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का उपयोग (Use of Trial and Error Method): -

Dr. Arun Kumar Ray

A.T.O

# Factors of Thinking

\* चिन्तन की प्रक्रिया में प्रथम एवं मूल विधि का उपयोग महत्वपूर्ण तत्व है। समस्या का निवारण करने के लिए मनुष्य विभिन्न विकल्पों में से सबसे विकल्प का चयन करता है जिसे द्वारा वह समस्या का निवारण कर सके और इसके लिए वह प्रथम एवं मूल विधि का उपयोग करता है।

\* (iv) विकल्पों को लक्ष्य की ओर निर्देशित करना :  
(directions to various targets) :  
जब समस्या के निवारण के लिए विभिन्न तरीके समझा होते हैं तब व्यक्ति उन सभी तरीकों को एक लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है।

\* (v) उचित निर्णय प्राप्त करना (to take genuine decision)  
चिन्तन प्रक्रिया समस्या की उपस्थिति से आरम्भ होती है। उसके समाधान के सम्भावित हल के निर्णय के साथ ही इसका समाधान होता है।

## \* बुद्धि द्वारा प्रतिपादित चिन्तन के तत्व \*

\* किसी विशेष उद्देश्य की ओर अग्रसर होना  
(orientation towards a goal),

\* उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इच्छा-उच्च मार्ग ढूँढना (seeking this way or that for realising the goal),

\* पूर्व-निरीक्षित किन्हीं दूसरे तत्वों का दोबारा स्मरण करना (Recall of previously observed facts),

\* विचार एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी समस्या का निवारण किया जा सकता है। इसके प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। समस्या की उपस्थिति, समस्या के निवारण हेतु मार्ग खोजना,